



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं0 पटना 460) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2019

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

27 नवम्बर 2018

सं० 1130—लखीसराय जिलान्तर्गत ग्राम— सिंगारपुर, पो0— सहुर, था0+अंचल— सूर्यगढ़ा स्थित विच्छवे पहाड़ी के निकट श्री रामेश्वर धाम एक प्राचीन मंदिर है, जो पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं०— 4280/13 है।

श्री निरंजन सिंह द्वारा रामेश्वर धाम के नाम से निबंधित अर्पणनामा दिनांक— 21/09/2012 के आलोक में इस सार्वजनिक न्यास का पर्षद में निबंधन किया गया है। साथ ही इस न्यास के सुव्यवस्था एवं समिति गठन हेतु स्थानीय लोगों से प्रस्तावित नामों को पर्षदीय पत्रांक— 1169, दिनांक— 05/12/14 द्वारा अंचल पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा से सत्यापन प्रतिवेदन मांगा गया था। पर्षदीय पत्र के आलोक में अंचल पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा का अनुशंसा उनके पत्रांक— 1330, दिनांक 08/09/2017 द्वारा प्राप्त हुआ। प्रस्तावित नामों का संबंधित थाना से चरित्र—सत्यापन कराया गया। थाना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

अतः पर्षद के तत्कालीक प्रशासक द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/04/2018 द्वारा न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु अंचल पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा की अध्यक्षता में एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 8 (क) सह पठित धारा— 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामेश्वर धाम, विच्छवे पहाड़ी के निकट, ग्राम— सिंगारपुर, पो0— सहुर, था0+अंचल— सूर्यगढ़ा, जिला— लखीसराय के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामेश्वर धाम न्यास योजना, विच्छवे पहाड़ी के निकट, ग्राम— सिंगारपुर, पो0— सहुर, था0+अंचल— सूर्यगढ़ा, जिला— लखीसराय” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामेश्वर धाम न्यास समिति, विच्छवे पहाड़ी के निकट, ग्राम— सिंगारपुर, पो0— सहुर, था0+अंचल— सूर्यगढ़ा, जिला— लखीसराय” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए **प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी संलग्न मार्गदर्शिका के आलोक में प्रस्तुत किया जायेगा।**
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त यथासंभव पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमिता/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्यवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्यवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. अंचल पदाधिकारी, सूर्यगढा, लखीसराय | — | पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री रामाश्रय सिंह पिता— स्व० धोधु सिंह, ग्रा०— सिंगारपुर | — | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री सीताराम सिंह पिता— स्व० त्रिवेणी सिंह, ग्रा०— सिंगारपुर | — | सचिव |
| 4. श्री रामाधार सिंह पिता— स्व० कामेश्वर सिंह, ग्रा०— सिंगारपुर | — | कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री निरंजन सिंह पिता— स्व० पारस सिंह, ग्रा०— सिंगारपुर | — | सदस्य |
| 6. डॉ० राम प्रवेश पिता— स्व० अर्जुन सिंह, ग्रा०— सडुर | — | सदस्य |
| 7. कुमारी बबीता पिता— स्व० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, ग्रा०— | — | सदस्य |
| 8. श्री शंभु पासवान पिता— स्व० चरित्र पासवान, ग्रा०— सिंगारपुर | — | सदस्य |
| 9. श्री निहोरी यादव पिता— स्व० जगदीश प्र० यादव, ग्रा०— गोहरी | — | सदस्य |
| 10. श्री राजेश कुमार पिता— स्व० कृष्ण कुमार सिंह सिंह, ग्रा०— रामपुर | — | सदस्य |
| 11. श्री पंकज कुमार पिता— स्व० भोला प्रसाद सिंह, ग्रा०— बुधौली बनकर | — | सदस्य |
| 12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी। | | |

विश्वासभाजन,
अखिलेश कुमार जैन,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 460-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>